

**पूर्वोत्तर सीमा रेल
(निर्माण संगठन)**

प्रेस विज्ञप्ति

मालीगांव: 5 नवंबर, 2018

पूर्वोत्तर सीमा रेल, निर्माण संगठन, मालीगांव में क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री एन. के. प्रसाद, महाप्रबंधक (निर्माण) की अध्यक्षता में 5 नवंबर, 2018 को पूर्वोत्तर सीमा रेल, निर्माण संगठन, मालीगांव की क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की कार्यवाही का संचालन श्री रवि भूषण, उप मुख्य राजभाषा अधिकारी/नि.ने किया।

बैठक का शुभारंभ श्री बी. एन. भास्कर, मुख्य इंजीनियर/नि.-1 एवं मुख्य राजभाषा अधिकारी (नि.) ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए किया। श्री भास्कर ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि महाप्रबंधक (निर्माण) महोदय के मार्गदर्शन में और सभी सदस्यों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए राजभाषा के प्रचार-प्रसार को आगे बढ़ाने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। हिंदी के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से हिंदी के महान कवियों के फोटो फ्रेम और त्रैमासिक "संवाद-पत्र" का प्रकाशन करवाया गया है। हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ाने के लिए हिंदी संपर्क अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जा रही हैं और प्रत्येक तिमाही में अलग-अलग विभागों को शामिल करते हुए "राजभाषा प्रदर्शनी" आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

श्री एन. के. प्रसाद, महाप्रबंधक/निर्माण एवं अध्यक्ष, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि राजभाषा हिंदी न केवल सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंपर्क भाषा के रूप में भी एक बहुत सशक्त माध्यम है। प्रत्येक तिमाही में विभागों में हो रहे हिंदी कामकाज को 'राजभाषा प्रदर्शनी' के माध्यम से दर्शाया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय प्रयास है। सभी विभाग हिंदी में अच्छा काम करने वाले विभागों से प्रेरणा लेकर अपने-अपने विभागों में हिंदी कामकाज को बढ़ाने का हरसंभव प्रयास करें।

श्री प्रसाद ने आगे कहा कि अधिकारियों का दौरा कार्यक्रम शत-प्रतिशत हिंदी में ही दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में और एक कदम आगे बढ़ते हुए इस तिमाही के दौरान सभी नियंत्रण अधिकारी यह संकल्प लें कि अपने अधीनस्थों से प्राप्त छुट्टी के आवेदनों को तभी स्वीकृत करें, जब हस्ताक्षर हिंदी में किए गए हों। हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से 'गूगल वॉयस टाइपिंग' कार्यशाला आयोजित की जा रही है और राजभाषा सप्ताह के दौरान अधिकारियों के लिए "गूगल वॉयस टाइपिंग" प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह एक सराहनीय प्रयास है और इस तरह के प्रयास निरंतर जारी रखे जाएं।

तत्पश्चात श्री रवि भूषण, उप मुख्य राजभाषा अधिकारी/निर्माण ने विभिन्न विभागों में हो रहे हिंदी कामकाज की उपलब्धियों पर "पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन" प्रस्तुत किया।

इस बैठक में महाप्रबंधक/निर्माण महोदय के कर-कमलों से हिंदी में सराहनीय कार्य करने के लिए श्री प्रदीप बरोई, कनिष्ठ लिपिक/अभिकल्प विभाग को नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

अंत में, रवि भूषण, उप मुख्य राजभाषा अधिकारी/निर्माण द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(एस. के. ओझा)

वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी/निर्माण
पूर्वोत्तर सीमा रेल, निर्माण संगठन, मालीगांव



**त्रैमासिक "संवाद-पत्र" का विमोचन करते हुए श्री एन. के. प्रसाद, महाप्रबंधक (निर्माण),
पूर्वोत्तर सीमा रेल, मालीगांव।**